



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 22, 2004—मई 28, 2004 (ज्येष्ठ 1, 1926)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22, 2004—MAY 28, 2004 (JYAISTHA 1, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 05 मई 2004

सं. 2/12/04/7391-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक श्रीमती शारदा खन्ना को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 13.04.2004 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल,
उप सचिव (प्रशासन)

दिनांक 07 मई 2004

सं. 2/45/03/7582-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) श्री विजय कुमार को आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर तकनीकी परीक्षक के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में दिनांक

12.04.2004 से 4 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल,
उप सचिव (प्रशासन)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिक रोड, दिनांक 31 मार्च 2004

सं. 1178/स्थापना-18-1--श्री आर. एन. बगोली, अनुभाग अधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड को प्रशासक अधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड पर वेतनमान रु. 7450-225-11500 में तदर्थ आधार पर एक वर्ष या पद नियमित आधार पर पद भरे जाने तक, दिनांक 8.3.04 से 7.3.2005 तक पदोन्नत किया जाता है।

प्रकाश नारायण
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा)
पश्चिम बंगाल
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

कोलकाता-700064, दिनांक 7 मई 2004

स्था. ले.प. (प्र.) पेंशन/वि.वि./204/74/589--कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री बेचाराम बेरा, व. लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.04.2004 (अपराह) को अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने के कारण सेवा निवृत्ति हो चुके हैं।

सुपर्णा

वरि. उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय)-I
पश्चिम बंगाल

स्था. ले.प. (प्र.) पेंशन/वि.एन./204/75/590--कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री बंशीधर नस्कर लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.04.2004 (अपराह) को अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने के कारण सेवा निवृत्ति हो चुके हैं।

सुपर्णा

वरि. उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय)-I
पश्चिम बंगाल

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-05, दिनांक 05 मई 2004

संदर्भ: पीडी/7(8)/2001-आर-III/616--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री डी सी मीना, सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए), ए एम डी, जबपुर को दिनांक 15.04.2004 (पूर्वाह) से, आगामी आदेशों तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में जी एस ओ, तारापुर में सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

(क्रय और भंडार निदेशालय)

मुंबई-400 094, दिनांक 28 अप्रैल 2004

संदर्भ: क्रमनि/एम-65/स्था./1707--इस निदेशालय के सहायक लेखा अधिकारी श्री एस. यू. इसरानी के सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप, उन्हें 31 अगस्त, 2003 के अपराह से सरकारी सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

टी. किशन
प्रशासनिक अधिकारी-III

संदर्भ: क्रमनि/आई-43/स्था./1708--इस निदेशालय की सहायक क्रय अधिकारी श्रीमती मोहिनी राजन की स्वीच्छिक सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप, उन्हें 15 अप्रैल, 2004 के पूर्वाह से सरकारी सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

टी. किशन
प्रशासनिक अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400 094, दिनांक 30 अप्रैल 2004

संदर्भ: भापाबो/भर्ती/4(15)/2004/256--राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्रों के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/वैज्ञानिक सहायकों/फोरमैन/मुख्य अग्निशमन अधिकारियों में से क्रम सं. 10 के श्री पी. विजयकुमार, जिनकी नियुक्ति की तारीख 23.8.2003 है, को छोड़कर शेष सभी को दिनांक 01 अगस्त, 2003 के पूर्वाह से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में नीचे कालम 4 में उल्लिखित पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नत किये गये	संयंत्र
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	शिवकुमार वर्मा	वैज्ञा. अधिकारी/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (कोट)
2.	गोपाल सिंह	वैज्ञा. अधिकारी/सी	वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासं (कोट)
3.	अनिल कुमार जैन	वैज्ञा. सहायक/ई	वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासं (कोट)
4.	इंद्रपाल सिंह तोमर	वैज्ञा. सहायक/ई	वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासं (कोट)
5.	रामेश्वर प्रसाद तिवारी	वैज्ञा. अधिकारी/एसबी	वैज्ञा. अधिकारी/सी	भापासं (कोट)
6.	जयंत नारायण राय	मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए	मुख्य अग्निशमन अधिकारी/बी	भापासं (कोट)
7.	प्रदीपकुमार रतिलाल शाह	वैज्ञा. अधिकारी/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (बड़ौदा)
8.	भक्त चरण श्रीवास्तव	वैज्ञा. अधिकारी/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (बड़ौदा)

1	2	3	4	5
9.	विरेशचंद्र ईश्वरदन भट्ट	वैज्ञा. अधिकारी/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (बड़ीदा)
10.	पंचत विजयकुमारन	फोरमैन/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (बड़ीदा)
11.	विनोद कुमार शर्मा	वैज्ञा. अधिकारी/एसबी	वैज्ञा. अधिकारी/सी	भापासं (बड़ीदा)
12.	जॉन एडिसन देवाकरम	वैज्ञा. अधिकारी/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (तूतीकोरिन)
13.	उदयथा पिल्लै नीलकंठ पिल्लै	वैज्ञा. अधिकारी/एसबी	वैज्ञा. अधिकारी/सी	भापासं (तूतीकोरिन)
14.	कृष्ण चन्द्र बेहेरा	वैज्ञा. अधिकारी/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (तालचेर)
15.	पलटेरु वैकट मालेश्वरा राव	वैज्ञा. अधिकारी/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (मणुगूरु)
16.	देवेन्द्र कुमार सिंह	वैज्ञा. अधिकारी/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (मणुगूरु)
17.	बाडला भास्करा चारी	वैज्ञा. अधिकारी/डी	वैज्ञा. अधिकारी/ई	भापासं (मणुगूरु)
18.	किलरू लक्ष्मण प्रसाद	वैज्ञा. अधिकारी/सी	वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासं (मणुगूरु)
19.	वेलथ वेटिल राधाकृष्णन	वैज्ञा. अधिकारी/सी	वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासं (मणुगूरु)
20.	निदादावोलु वैकट मुरली कृष्ण	वैज्ञा. अधिकारी/सी	वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासं (मणुगूरु)
21.	अनुप कुमार नाथ	वैज्ञा. अधिकारी/सी	वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासं (मणुगूरु)
22.	शिबा प्रसाद दत्ता	वैज्ञा. अधिकारी/सी	वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासं (मणुगूरु)
23.	पॉल जॉन बेन्सम	वैज्ञा. अधिकारी/सी	वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासं (मणुगूरु)
24.	मोहम्मद जहीरुद्दीन अहमद	वैज्ञा. अधिकारी/एसबी	वैज्ञा. अधिकारी/सी	भापासं (मणुगूरु)
25.	नेलादुरी वैकट राघवैया	वैज्ञा. सहायक/सी	वैज्ञा. अधिकारी/सी	भापासं (मणुगूरु)

क्रम सं. 10 के श्री पी. विजयकुमारन जिनकी कार्यभार छोड़ने की तारीख 25.8.2003 है को छोड़कर, सभी अधिकारियों ने दिनांक 1 अगस्त 2003 के पूर्वाह्न से कालम सं. 3 में उल्लिखित अपने धारित पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

वेतनमान :

1. वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई'	--	12000-375-16500
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी/बी	--	12000-375-16500
3. वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'डी'	--	10000-325-15200
4. वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी'	--	8000-275-13500

आर. के. सेनी
मुख्य प्रशासन अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500 062, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. एनएफसी/काप्रभ-1/04/06/409--दिनांक 06.12.2003 की अधिसूचना सं. एनएफसी/काप्रभ-1/04/06/1431 के क्रम में श्री एम.एम. रसूल, प्रशा. अधिकारी-II को प्रशा. अधिकारी-III के रूप में तदर्थ नियुक्ति दिनांक 27.12.2003 तक बढ़ाई जाती है।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

अंतरिक्ष विभाग

मुख्य नियंत्रण सुविधा

हासन-573 201, दिनांक 28 अप्रैल 2004

सं. एम.सी.एफ. प्रशासन : 31/01--निदेशक, मुख्य नियंत्रण सुविधा, अंतरिक्ष विभाग, हासन निम्नलिखित अधिकारियों को मुख्य नियंत्रण सुविधा,

हासन में प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट पदोन्नति पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	जिस पद पर पदोन्नति हुई है	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	स/श्री		
1.	पंकज कुमार धाकर	सहायक क्रय एवं भंडार अधिकारी	05.04.2004
2.	आर. धर्मराजन	सहायक क्रय एवं भंडार अधिकारी	16.04.2004

सी. एच. बसवराजु
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र

तिरुवनंतपुरम-695 022, दिनांक 22 अप्रैल 2004

सं. वी एस एस सी/स्था/एफ/1(17)--निदेशक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) एतद्वारा निम्नलिखित तकनीक सहायक 'ग' को पदोन्नति पर रु. 6500-200-10500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस बी' के पद पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र में तारीख 01.04.2004 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	प्रभाग
01	श्री पी एम सेबास्टियन	ए एम एफ डी
02	श्री एन सांबशिवन	ई एम डी
03	श्री एस विजयन	क्यू सी डी

ए के सोमशेखरन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग,

कार्यालय : कम्पनी रजिस्ट्रार,

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मै. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया)
लिमिटेड के मामले में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अप्रैल 2004

आदेश एवं कार्यकृत पंजीकृत किए जाने के सम्बन्ध में :

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा पारित दि. 17 नवम्बर, 2003 का आदेश सं. 40/1/2003-CL III जो कि उपर्युक्त लिखित कम्पनी की प्रदत्त पूंजी की घटेत्तरी की पुष्टि के लिए जारी किया गया है और जिसमें रुपये 909,44,000/- (नौ सौ नौ करोड़ और चारालिस लाख रुपये) जिन्हें 90,94,400 इक्विटी शेयर, जिनकी प्रत्येक की फेस वैल्यू 1000/- रुपये हैं, रुपये 35,42,26,880 (पैंतीस करोड़ बयालिस लाख छब्बीस हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) में विभक्त किया गया है और 90,94,400 इक्विटी शेयर, जिनकी प्रत्येक की फेस वैल्यू 38.95 रुपये हैं, विभक्त कर दिया गया है, ऐसा, उपर्युक्त आदेश एवं उपर्युक्त कम्पनी की शेयर कैपिटल के परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले कार्यवृत्त को तथा अधिनियम में वांछित अन्य विवरणों को, कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एवं हरियाणा द्वारा दि. 15 दिसम्बर, 2003 को पंजीकृत कर लिया गया है।

आर. डी. कश्यप
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली एवं हरियाणा

कंपनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बैंगलूर-34, दिनांक 07 अप्रैल 2004

सं. एस. टी. ए./के. एम./560(3)/2004--कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण ए एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर कारण न बताया गया तो कंपनी का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा। और उस दिन से कंपनी विघटित समझी जायेगी :--

क्र. सं.	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1.	15569	बीथेल फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड।
2.	18336	वीनस ऐरो सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड।
3.	19173	मैंगलोर स्टेन क्लीनिक एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड।
4.	17132	शमानुर सेक्यूरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड।
5.	20667	सिरियस प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड।

संतोष कुमार
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेमेनोस सर्विसेज़ (इंडिया) प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. 42103/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स टेमेनोस सर्विसेज़ (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स है. फैं. लेदर प्राईवेट लिमिटेड के
विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. 42261/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स है. फैं. लेदर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तमिलनाडु आटोमेटिव
काम्पोनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. 42332/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560
की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स
तमिलनाडु आटोमेटिव काम्पोनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर
से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तमिलनाडु आटो प्रोडक्ट्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. 42333/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560
की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स
तमिलनाडु आटो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तमिलनाडु आटो पार्ट्स एण्ड
अनसीलरीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. 42334/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560
की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स
तमिलनाडु आटो पार्ट्स एण्ड अनसीलरीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खजाना भुलपण प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं. 42487/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560
की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स
खजाना भुलपण प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया
है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी
कंपनियों के सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 05th May 2004

No. 2/12/04-Admn.7391.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Smt. Sharda Khanna, Assistant in the Commission as Section Officer in the Commission in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- for a period of three months on ad-hoc basis with effect from 13.4.2004 (F/N) till further orders, whichever is earlier.

MENGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)

The 07th May 2004

No. 2/45/03-Admn. 7582.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Vijay Kumar, Executive Engineer (Civil), CPWD as Technical Examiner (Civil) in the Commission on deputation basis, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 12.04.2004, for a period of four years or till further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)
For Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
INDIA SECURITY PRESS

Nashik Road, the 31st March 2004

No. 1178/EST-18-1.—Shri R.N. Baggolli, Section Officer, India Security Press, Nashik Road, is promoted to the post of Administrative Officer on adhoc basis, w.e.f. 08.03.2004 to 07.03.2005 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500.

PRAKASH NARAYAN
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
ACCOUNTANT GENERAL (LOCAL BODIES AUDIT),
WEST BENGAL

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

Kolkata-700064, the 07th May 2004

No. LA/Admn./Pen/BB/204/74/589—Shri Becharam Bera, Sr. Audit Officer of the Office of the Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal, Local Audit Department retired on superannuation with effect from 30.04.2004 (A.N.)

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Local Bodies)-I
West Bengal

No. LA/Admn./Pen/BN/204/75/590—Shri Banshidhar Naskar, Audit Officer of the Office of the Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal, Local Audit Department, retired on superannuation with effect from 30.04.2004 (A.N.)

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Local Bodies)-I
West Bengal

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 05th May 2004

Ref: PD/7/(8)/2001-R-III/616—Controller, BARC appoints Shri D.C. Meena, Assistant Security Officer (A), AMD, Jaipur to officiate as Security Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 at GSO, Tarapur w.e.f. the forenoon of 15th April, 2004 on regular basis until further orders.

K.C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai 400094, the 28th April 2004

Ref: DPS/I-43/Estt./1707.—Consequent on his superannuation, Shri S.U. Israni, Assistant Accounts Officer of this Directorate has been relieved from Government service w.e.f. the afternoon of August 31, 2003.

T. KISHAN
Admn. Officer-III

Ref: DPS/M65/Estt./1708.—Consequent on her voluntary retirement, Smt. Mohini Rajan, Assistant Purchase Officer of this Directorate has been relieved from Government service with effect from the forenoon of April 15, 2004.

T. KISHAN
Admn. Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 30th April 2004

Ref: HWB/R/4(15)/2004/256—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers/Scientific Assistant/Chief Fire Officer/Foreman of Heavy Water Plants to the posts as indicated in Column 4 below with effect from the forenoon of August 1st, 2003 except Shri P. Vijaykumaran at Sl. No. 10 whose date of appointment is with effect from 25.08.2003 in the same Office/Plant in a temporary capacity until further orders :—

Sr. No.	Name	Present Grade	Promoted Grade	Plant
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	Shiv Kumar Verma	SO/D	SO/E	Kota
2.	Gopal Singh	SO/C	SO/D	Kota
3.	Anil Kumar Jain	SA/E	SO/D	Kota
4.	Indra Pal Singh Tomer	SA/E	SO/D	Kota
5.	Rameshwar Prasad Tiwari	SO/SB	SO/C	Kota
6.	Jayanta Narayan Ray	CFO/A	CFO/B	Baroda
7.	Pradip Kumar Ratilal Shah	SO/D	SO/E	Baroda
8.	Bhakt Charan Shrivastava	SO/D	SO/E	Baroda
9.	Vireshchandra Indravadan Bhatt	SO/D	SO/E	Baroda

1	2	3	4	5
	S/Shri			
10.	Pachat Vijaykumaran Baroda	Foreman/D	SO/E	
11.	Vinod Kumar Sharma	SO/SB	SO/C	Baroda
12.	John Edison Devakaram	SO/D	SO/E	Tuticorin
13.	Udayanatha Pillai Neelakanta Pillai	SO/SB	SO/C	Tuticorin
14.	Krishna Chandra Behera	SO/D	SO/E	Talcher
15.	Palteru Venkata Malleswara Rao	SO/D	SO/E	Manuguru
16.	Devendra Kumar Singh	SO/D	SO/E	Manuguru
17.	Vadia Bhaskara Chary	SO/D	SO/E	Manuguru
18.	Kilaru Laxmana Prasad	SO/C	SO/D	Manuguru
19.	Velath Vetil Radhakrishnan	SO/C	SO/D	Manuguru
20.	Nidadavolu Venkata Murali Krishna	SO/C	SO/D	Manuguru
21.	Anup Kumar Nath	SO/C	SO/D	Manuguru
22.	Shiba Prasad Dutta	SO/C	SO/D	Manuguru
23.	Paul John Bensam	SO/C	SO/D	Manuguru
24.	Mohammed Zaheeruddin Ahmed	SO/SB	SO/D	Manuguru
25.	Nelaturi Venkata Raghavaiah	SAC	SO/C	Manuguru

The above Officers relinquished charge of the post held by them as mentioned in the column No. 3 on the forenoon of August 1st, 2003 except Shri P. Vijaykumaran at Sl. No. 10 whose date of relinquishment is with effect from 25.08.2003.

R.K. SAINI
Chief Admn. Officer

(NUCLEAR FUEL COMPLEX)

Hyderabad-500062, the 30th April 2004

No. NFC/PAR-1/04/06/409.—In continuation of Notification No. NFC/PAR-1/04/06/1431 dated 06.12.2003, the adhoc appointment of Shri M.M. Rasool, AO-II as AO-III has been extended upto 27.12.2003.

G KOTESWARA RAO
Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE

MASTER CONTROL FACILITY

Hassan-573201, the 28th April 2004

No. MCF: ADMN:31/01—Director, Master Control Facility, Department of Space, Hassan is pleased to appoint the following officials on promotion to the posts indicated against each in the Master Control Facility, Hassan in an officiating capacity with effect from the date mentioned against each and until further orders.

Sl. No.	Name	Post to which promoted	Dt. of assumption of charge
	S/Shri		
01.	Pankaj Kumar Dhakara	Asstt. Purchase and Stores Officer	05.04.2004
02.	R. Dharmarajan	Asstt. Purchase and Stores Officer	16.04.2004

CH BASAVARAJU
Sr. Admn. Officer

VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

Thiruvananthapuram-695022, the 22nd April 2004

No. VSSC/EST/F/1/(17)—Director, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion the following Technical Assistants-C as Scientist/Engineer-SB in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in Vikram Sarabhai Space Centre with effect from 01.04.2004 (FN), until further orders :—

Sl. No.	Name	Division
01.	Shri PM Sebastian	AMFD
02.	Shri N Sambasivan	EMD
03.	Shri S Vijayan	QCD

A. K. SOMASEKHARAN
Senior Admn. Officer

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore-560034, the 07th April 2004

No. STA/KM/560(3) 2004—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of one month from the date hereof the name of the following companies, unless cause is shown to contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

S. No.	Company Number	Name of the Company
1.	15569	M/s. Bethel Farms Private Limited
2.	18336	M/s. Venus Aero Services Private Ltd.
3.	19173	M/s. Mangalore Stone Clinic and Research Centre Private Limited
4.	17132	M/s. Shamanur Securities Private Ltd.
5.	20667	M/s. Sirius Properties Private Ltd.

SANTOSH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Temenos Services (India) Pvt. Ltd.

Chennai-600006, the 30th April 2004

No. 42103/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Temenos Services (India) Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Hi-Fi Leather Pvt. Ltd.

Chennai-600006, the 30th April 2004

No. 42261/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956 that the name of M/s. Hi-Fi Leather Private Ltd., has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Tamilnadu Automotive Components Marketing Pvt. Ltd.

Chennai-600006, the 30th April 2004

No. 42332/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956 that the name of M/s. Tamilnadu Automotive Components Marketing Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of M/s. Tamilnadu Auto Products Pvt. Ltd.

Chennai-600006, the 30th April 2004

No. 42333/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tamilnadu Auto Products Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Tamilnadu Auto Parts and Ancillaries Marketing Pvt. Ltd.

Chennai-600006, the 30th April 2004

No. 42334/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tamilnadu Auto Parts and Ancillaries

Marketing Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s.
Khazana Bullion Pvt. Ltd.

Chennai-600006, the 30th April 2004

No. 4248/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khazana Bullion Private Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES NCT OF DELHI & HARYANA

New Delhi-110003, the 15th April 2004

NOTICE OF REGISTRATION OF ORDER AND MINUTE

Notice is hereby given that the order No. 40/1/2003-CL.III dated 17th November, 2003 of Govt. of India, Ministry of Finance, Deptt. of Company Affairs confirming the reduction of the Paid up Share Capital of the above named Company from Rs. 909,44,00,000/- (Rupees Nine Hundred Nine Crores and Forty Four Lacs only) divided into 90,94,400 equity shares of face value of Rs. 1000/- each to Rs. 35,42,26,880/- (Rupees Thirty Five Crores Forty Two Lacs Twenty Six Thousand Eight hundred and Eighty only) divided into 90,94,400 equity share of face value of Rs. 38.95 each and the minute approved by the Central Government showing with respect to the Share Capital of the above Company as altered, the several particulars required by the above Act, were registered by the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana on the 15th of December 2003.

R.D. KASHYAP
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004